

सावधि जमा (एफडी) – एचडीएफसी बैंक की ब्याज गणना पद्धति

हम वर्ष के दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर ब्याज की गणना करते हैं. यदि सावधि जमा लीप और गैर – लीप वर्ष में फैला है तो ब्याज की गणना दिनों के आधार पर की जाती है यानी लीप वर्ष में 366 दिन तथा गैर लीप वर्ष में 365 दिन.

उदाहरण:

वर्ष में दिनों की संख्या 365	वर्ष में दिनों की संख्या 366 (लीप वर्ष)
एफडी मूलधन - 100000	एफडी मूलधन - 100000
एफडी बुकिंग दिनांक - 01-01-2010	एफडी बुकिंग दिनांक - 01-01-2012
ब्याज की दर - 8.00%	ब्याज की दर - 8.00%
एफडी अवधि - 150 दिवस	एफडी अवधि - 150 दिवस
एफडी परिपक्वता दिनांक - 31-05-2010	एफडी परिपक्वता दिनांक - 30-05-2012
अदा किया गया ब्याज - $100000 * 150 * 8\% / 365 = 3287.67/-$	अदा किया गया ब्याज - $100000 * 150 * 8\% / 366 = 3278.69/-$

सावधि जमा (एफडी) के परिपक्वता पूर्व समापन पर जुर्माना

बैंक के सावधि जमा खातों के नियमों व शर्तों के अनुसार स्वीप-इन और आंशिक समापन सहित सावधि जमा के परिपक्वता पूर्व समापन पर जुर्माना बैंक द्वारा 1% की दर पर तय किया गया है. यह 24 जनवरी 2011 से प्रभावी तौर पर लागू होगा.

बचत खाता ब्याज दर में बदलाव

- बचत बैंक खाते पर ब्याज 4.00% प्रतिवर्ष अदा किया जाता है.
- इसकी गणना खाते में दिन के अंत में रहे शेष पर की जाती है.



एच डी एफ सी बैंक

हम समझें आपकी दुनिया